



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 नवम्बर, 2022

कार्तिक 19, 1944 शक सम्वत्

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVACHAN SADAN

ASHOKA ROAD

NEW DELHI-110001

10<sup>th</sup> November, 2022,

No. 100/UP-LA/3/2022

Dated : \_\_\_\_\_

19 Kartika, 1944 (Saka).

### NOTIFICATION

**WHEREAS**, the seat of **Shri Vikram Singh** in the Legislative Assembly of the State of Uttar Pradesh, elected from **15-Khatauli** Assembly Constituency, has become vacant on 11<sup>th</sup> October, 2022, by reason of his disqualification under Article 191(1) (e) of the Constitution of India read with Section 8 of the Representation of the People Act, 1951 on account of conviction and sentence by Additional Session Judge Court No.-4, Special Judge, M.P./ M.L.A. Court, Muzaffarnagar order; and

**WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

**NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section (1) of Section 150, and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby:-

**(A) calls upon** the said **15-Khatauli** Assembly Constituency in the State of Uttar Pradesh, to elect, before the 10<sup>th</sup> December, 2022 (Saturday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

**(B) appoints**, with respect to the said election:-

- the 17<sup>th</sup> November, 2022 (Thursday), as the last date for making nominations;
- the 18<sup>th</sup> November, 2022 (Friday), as the date for the scrutiny of nominations;
- the 21<sup>st</sup> November, 2022 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
- the **5<sup>th</sup> December, 2022 (Monday)**, as the date on which a poll shall, if necessary, be taken;
- the 10<sup>th</sup> December, 2022 (Saturday), as the date before which the election shall be completed; **and**

(C) fixes the hours from 7:00 am to 6:00 pm as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above, for the election.

By order,  
AMIT KUMAR,  
Secretary,  
Election Commission of India.

By order,  
AJAY KUMAR SHUKLA,  
Secretary.

## भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,  
अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001

सं० 100/उ०प्र०-वि०स०/3/2022

दिनांक : 10 नवम्बर, 2022  
19 कार्तिक, 1944 (शक)

### अधिसूचना

**यतः**, उत्तर प्रदेश राज्य की विधान सभा में **15-खतौली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, **श्री विक्रम सिंह** की सीट, अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०-4, विशेष न्यायाधीश, एम०पी०/ एम०एल०ए० कोर्ट, मुजफ्फरनगर के आदेश में दोषसिद्धि एवं सजा दिए जाने के कारण, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 191(1)(ड) के अंतर्गत उनकी निरर्हता की वजह से, दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 को रिक्त हो गयी है ; और

**यतः**, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजनार्थ उप-निर्वाचन कराया जाना है ;

**अतः**, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उप-धारा (1), तथा धारा 30 और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्वारा -

(अ) उत्तर प्रदेश राज्य में उक्त **15-खतौली** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि **10 दिसम्बर, 2022 (शनिवार)** से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्वर्ती बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार, राज्य की विधान सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दिया जाए ;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्धारित करता है :-

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख :                    | 17 नवम्बर, 2022 (गुरुवार);          |
| (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख :                  | 18 नवम्बर, 2022 (शुक्रवार);         |
| (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख :              | 21 नवम्बर, 2022 (सोमवार);           |
| (घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान होगा         | <b>5 दिसम्बर, 2022 (सोमवार);</b> और |
| (ङ) वह तारीख, जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | 10 दिसम्बर, 2022 (शनिवार)           |

(इ) **07:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक** का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा ।

आदेश से,  
अमित कुमार,  
सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग ।

आज्ञा से,  
अजय कुमार शुक्ला,  
सचिव ।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 797 राजपत्र-2022-(1211)-588+50 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट) ।